

व्राणिज्य में स्नातक (बी. कॉम. - जी)

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली

बी. सी. ओ. ई. -142: प्रबंधन लेखांकन

सत्रीय कार्य
2026

जाँच सत्रीय कार्य की अवधि - 1 जनवरी 2026 से 31 दिसम्बर 2026

षष्ठम सत्र



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली -1100 68



वाणिज्य में स्नातक (बी. कॉम. - जी)

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली

बी. सी. ओ. ई. -142: प्रबंधन लेखांकन

सत्रीय कार्य

2026

प्रिय छात्र/छात्राओं,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, इस सत्रीय कार्य को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। खण्ड - क में पांच प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न क्रमशः 10 अंक के हैं। खण्ड - ख में पांच प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न क्रमशः 6 अंक के हैं। खण्ड - ग में दो प्रश्न दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न क्रमशः 10 अंक के हैं।

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30% अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इस सत्रीय कार्य को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

1. वे छात्र जो जून 2026 की सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। वे उसको 15 मार्च 2026 तक जमा करवायें।
2. वे छात्र जो दिसंबर 2026 के सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें अक्टूबर 2026 तक जमा करवाना होगा।

आपको सभी पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करना होगा।

अध्यापक जांच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	बी. सी. ओ. ई. -142
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	प्रबंधन लेखांकन
सत्रीय कार्य का कोड	:	बी.सी.ओ. ई.-142/टी. एम. ए./2026
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

खण्ड – क

1. प्रबंधन लेखांकन का प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा कीजिए। (10)
2. निम्नलिखित विवरणों के आधार पर विभिन्न उत्तोलन अनुपात (Leverage ratio) की गणना कीजिए। (10)

देयताएँ (Liabilities)	राशि (₹.)	परिसंपत्तियाँ (Assets)	राशि (₹.)
इक्विटी शेयर पूंजी	40,000	भूमि	22,000
8% वरीयता (प्रेफरेंस) शेयर पूंजी	20,000	भवन	24,000
आरक्षित निधि	10,000	संयंत्र एवं मशीनरी	38,000
लाभ एवं हानि खाता	5,000	फर्नीचर	5,000
10% डिबेंचर	45,000	देयकर्ता (संड्री डेटर्स)	22,000
व्यापारिक देनदार	9,000	भंडार (स्टॉक)	13,000
बकाया व्यय	2,000	पूर्वभुक्त व्यय (प्रीपेड)	2,000
नगद	14,000		
कर हेतु प्रावधान	3,000		
प्रस्तावित लाभांश	6,000		
कुल	1,40,000	कुल	1,40,000

3. प्रत्यक्ष श्रम लागत विचरण से आप क्या समझते हैं? किसी उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। (10)
4. प्रबंधकीय निर्णयन में सीमांत लागत लेखांकन के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। (10)
5. “विक्रय एवं उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि से लाभ में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है”। व्याख्या कीजिए। (10)

खण्ड – ख

6. कच्चे माल X तथा Y से निर्मित एक उत्पाद का निम्नलिखित मानक मिश्रण दिया गया है: (6)

मानक मिश्रण (Standard mix):

सामग्री (Material)	मात्रा	मूल्य (₹.)	राशि (₹.)
A	2	2.00	4.00
B	8	1.00	8.00
	10		12.00

वास्तविक मिश्रण (Actual mix):

सामग्री (Material)	मात्रा	मूल्य (रु.)	राशि (रु.)
A	8	2.00	16.00
B	4	1.25	5.00
	12		21.00

निर्धारित जानकारी के आधार पर सामग्री मिश्रण विचलन की गणना कीजिए।

7. वित्तीय विवरण क्या हैं? निर्णयन के उद्देश्य से ये कितने उपयोगी हैं, समझाइए। (6)
8. विक्रय बजट क्या है? इसे कैसे तैयार किया जाता है, समझाइए। (6)
9. “बजट एक माध्यम है और बजटीय नियंत्रण अंतिम परिणाम है” — इस कथन की व्याख्या कीजिए। (6)
10. मानक लागत लेखांकन के लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या करते हुए एक विस्तृत नोट लिखें। (6)

खण्ड – ग

11. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए: (2 x5)
 - क) लागत नियंत्रण और लागत में कमी
 - ख) स्थाई बजट (Fixed Budget) और लोचदार बजट (Flexible Budget)
12. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (2 x5)
 - क) बजटीय नियंत्रण
 - ख) विभेदक लागत (Differential Costing)